



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 ज्येष्ठ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1107) पटना, सोमवार, 16 जून 2025

सं० 15/औ०-14-09/2022-708(15)
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प
10 जून 2025

श्री जितेन्द्र कुमार, औषधि निरीक्षक, पटना-05 सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि हेतु निर्धारित मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ) के विरुद्ध रु०-1,59,21,651/- (एक करोड़ उन्नसठ लाख एककीस हजार छः सौ एकावन रुपये) आय से अधिक चल एवं अचल संपत्ति के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या-30/2022 दिनांक-24.06.2022 धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(बी)भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज है एवं सरकारी पद पर कार्य करते हुए पद का भ्रष्ट उपयोग एवं बिहार कॉलेज ऑफ फॉर्मसी, गोला रोड, पटना (निजी संस्था) के अवैध रूप से निदेशक के पद पर कार्यरत रहने तथा निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में बिना योगदान किये ही अपने कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपो के लिए श्री कुमार, औषधि निरीक्षक, पटना-05 सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) एवं (ग) में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प सं०-626(15), दिनांक-04.07.2022 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय संकल्प संख्या-740(15), दिनांक-08.08.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. निलंबनादेश की सूचना श्री जितेन्द्र कुमार के ई-मेल आई०डी० पर भी भेजे जाने के बावजूद उनके द्वारा निलंबन अवधि हेतु निर्धारित मुख्यालय (क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ का कार्यालय) में योगदान नहीं किया गया तथा विभागीय कार्यवाही के दौरान दिनांक-11.08.2022, 25.08.2022 एवं 02.12.2022 तीनों तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहने पर संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री कुमार के विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने हेतु दिनांक-04.12.2022 को सामाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया, परंतु वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष (स्वास्थ्य विभाग के कमरा सं०-194) कभी उपस्थित नहीं हुए। श्री कुमार द्वारा मात्र दिनांक 09.12.2022 एवं 13.12.2022 को विभागीय वितरण शाखा में हस्ताक्षरित पत्र समर्पित किया गया, जिससे न तो उनका

मोबाईल नम्बर, न पत्राचार/स्थायी पता तथा न ही ई-मेल आई० डी० अंकित था, ताकि विभाग द्वारा उनसे सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार के विरुद्ध उक्त प्रतिवेदित आरोप/आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

5. तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-354(15), दिनांक-11.04.2023 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक-17.04.2023 को द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम/जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर पर सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-14(Xi) के संगत नियमों के तहत 'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी' का शास्ति/दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

7. अधिरोपित शास्ति/दंड प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-254, दिनांक-25.04.2024 एवं पत्रांक-429, दिनांक-07.05.2025 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है तथा दिनांक-03.06.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-24 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

8. अतएव श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05 सम्प्रति निलंबित मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, पूर्णियाँ मंडल, पूर्णियाँ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-14(Xi) के संगत नियमों के तहत 'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी' का शास्ति/दंड संसूचित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी मूल प्रति श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05 सम्प्रति निलंबित मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
कृष्णा उराँव,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1107-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>